



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-26122024-259641  
CG-MH-E-26122024-259641

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1033]  
No. 1033]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 2024/पौष 5, 1946  
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 2024/PAUSHA 5, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 24 दिसम्बर, 2024

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/222.—वायदा बाजार आयोग (जो पहले हुआ करता था) द्वारा, तारीख 9 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2565 (अ) के माध्यम से, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 [फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1952] (जो निरस्त हो चुका है) की धारा 6 के अनुसार इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड को एक 'संघ' (असोसिएशन) के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी।

2. और अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 28क (28ए) की उप-धारा (1) में यह प्रावधान था कि वायदा बाजार आयोग का भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) में विलय हो जाने के बाद, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के तहत मान्यताप्राप्त सभी संघों (असोसिएशन) को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉन्ट्रेक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] के तहत मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज समझा जाए। तदनुसार, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के तहत मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज बन गया।

3. और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई तारीख 13 सितम्बर, 1994 की अधिसूचना सं. का.आ. 672(अ) के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उप-धारा (1) में यह प्रावधान है कि जहाँ सेबी की यह राय

हो कि स्टॉक एक्सचेंज को प्रदान की गई मान्यता ट्रेडिंग के हित में या लोक हित (जनहित) में वापस ले ली जानी चाहिए, वहाँ ऐसे स्टॉक एक्सचेंज को प्रदान की गई मान्यता वापस ले ली जाए ।

4. और सेबी द्वारा तारीख 10 मई, 2022 के आदेश के माध्यम से, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड को प्रदान की गई मान्यता वापस ले ली गई थी, और इस संबंध में राजपत्र में 18 मई, 2022 को एक अधिसूचना (सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/86) जारी की गई थी । तारीख 10 मई, 2022 के आदेश को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के समक्ष चुनौती दी गई थी, और फिर सैट ने 13 जून, 2022 को आदेश जारी करके सेबी के तारीख 10 मई, 2022 के आदेश और तारीख 18 मई, 2022 की अधिसूचना (जिनके माध्यम से इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड को प्रदान की गई मान्यता वापस ले ली गई थी) को खारिज कर दिया था, हालाँकि तारीख 13 जून, 2022 के आदेश में दी हुई शर्तों का पालन करने को कहा गया था ।

5. तारीख 13 जून, 2022 का आदेश जारी होने के बाद, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड ने 22 फरवरी, 2023 को पत्र लिखकर सेबी से यह अनुरोध किया था कि या तो उन्हें विनियमों के कुछ प्रावधानों के पालन से छूट प्रदान कर दी जाए या फिर उनके इस पत्र को ही मान्यता (जो इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड को मिली हुई है) का स्वैच्छिक अभ्यर्पण (सरंडर) मान लिया जाए ।

6. तदनुसार, सेबी ने 10 दिसम्बर, 2024 को आदेश जारी करके, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड को बाहर निकलने (एक्जिट) की अनुमति दे दी है और स्टॉक एक्सचेंज के रूप में उसे प्रदान की गई मान्यता वापस ले ली है, बशर्ते कि उस आदेश में दिए हुए निदेशों का पालन किया जाए । उपरोक्त आदेश इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड को प्रदान की गई मान्यता वापस लेने के संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से ही लागू होगा ।

7. इसीलिए, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेबी एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड को प्रदान की गई मान्यता राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से वापस ली जाती है ।

माधवी पुरी बुच, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./850/2024-25]

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

Mumbai, the 24th December, 2024

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/222.**—Whereas the erstwhile Forward Market Commission, vide Notification dated October 9, 2009 bearing number S.O. No. 2565 (E), granted recognition to the Indian Commodity Exchange Limited as an 'association' in terms of section 6 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (since repealed).

2. And whereas sub-section (1) of section 28A of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 provided that pursuant to the merger of the Forward Market Commission with the Securities and Exchange Board of India, all the associations recognised under the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 were deemed to be recognised stock exchanges under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956. Accordingly, the Indian Commodity Exchange Limited became a deemed recognised stock exchange under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956.

3. And whereas sub-section (1) of section 5 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 read with the Notification dated September 13, 1994 bearing number S.O. 672 (E) issued by the Ministry of Finance provides that where the Securities and Exchange Board of India is of the opinion that the recognition granted to a stock exchange be withdrawn in the interest of the trade or in the public interest, the recognition granted to such stock exchange stands withdrawn.

4. And whereas the Securities and Exchange Board of India vide Order dated May 10, 2022, withdrew the recognition granted to the Indian Commodity Exchange Limited and the same was notified in the Official Gazette on May 18, 2022 bearing number SEBI/LAD-NRO/GN/2022/86. The Order dated May 10, 2022 was challenged before the Securities

Appellate Tribunal which vide Order dated June 13, 2022 set aside the SEBI Order dated May 10, 2022 and the Notification dated May 18, 2022 withdrawing the recognition of the Indian Commodity Exchange Limited, subject to the conditions mentioned in the Order dated June 13, 2022.

5. Pursuant to Order dated June 13, 2022, Indian Commodity Exchange Limited vide letter dated February 22, 2023 requested the Securities and Exchange Board of India to relax certain regulatory provisions or the letter may be considered as voluntary surrender of the recognition granted to the Indian Commodity Exchange Limited.

6. Accordingly, vide an Order dated December 10, 2024, the Securities and Exchange Board of India permitted the exit of the Indian Commodity Exchange Limited as a stock exchange and the consequent withdrawal of recognition granted to it, subject to certain directions contained therein. The Order shall come into force on the date of the Notification of withdrawal of recognition granted to the Indian Commodity Exchange Limited in the Official Gazette.

7. Therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 5 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, the Securities and Exchange Board of India hereby notifies that, the recognition granted to the Indian Commodity Exchange Limited stands withdrawn with effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

MADHABI PURI BUCH, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./850/2024-25]